

वाट्सऐप

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

वाट्सऐप मैसेंजर (अंग्रेजी: WhatsApp Messenger) स्मार्ट फोनों पर चलने वाली एक प्रसिद्ध तत्क्षण मेसेजिंग सेवा है। इसकी सहायता से इन्टरनेट के द्वारा दूसरे 'वाट्सऐप' उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर टेक्स्ट संदेश के अलावा ऑडियो, छवि, वीडियो तथा अपनी स्थिति (लोकेशन) भी भेजी जा सकती है।^{[1][2]}

सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, **वाट्सऐप** पर 90 करोड़ अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, यह विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय तत्क्षण मैसेंजर है।^[3]

फेसबुक इंक ने 19 फरवरी 2014 को, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में स्थित **वाट्सऐप इंक.** को लगभग 19 अरब डॉलर में लिए खरीद लिया था।^{[4][5][6]}

अनुक्रम

शुरुआत

आय का प्रारूप

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

शुरुआत

जनवरी २००९ में जेन कूम ने एप्पल का एक आईफोन खरीदा। इस फोन से जेन कूम को एप के जबर्दस्त लोकप्रिय हो सकने की संभावनाओं का अंदाजा लग गया। इसी दौरान जेन कूम अपने रूसी मूल के दोस्त एलेक्स फिशमैन के पश्चिमी सैन जोस स्थित घर गए। फिशमैन रूसी मूल के दोस्तों को हर सप्ताह पीत्ज़ा खाने और फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करते थे। कई बार इस महफिल में ४० लोग तक आ जाते थे। फिशमैन के रसोईघर में जेन कूम और फिशमैन चाय पीते हुए एप पर घंटों चर्चा करते थे। इसी बातचीत के दौरान वॉट्सऐप जैसा एक नया एप बनाने के विचार ने जन्म लिया। दिलचस्प वॉट्सऐप, दिलचस्प मालिक वॉट्सऐप को उक्रेन के ३७ साल के जन कूम ने अमेरिका के ४४ साल के ब्रायन एक्टन के साथ मिल कर शुरू किया था। बाद में एक और 'वेंचर कैपिटलिस्ट', जिम गोएट्ज़ भी इसमें शामिल हो गए। जेन कूम कंपनी के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) हैं। मशहूर व्यावसायिक पत्रिका 'फोर्ब्स' के मुताबिक वॉट्सऐप के मुख्य कार्यकारी जन कूम के पास इस कंपनी की ४५ फीसदी हिस्सेदारी है।

आय का प्रारूप

फेसबुक ने इसे २०१५ से नि:शुल्क कर दिया है।

सन्दर्भ

वाट्सऐप



विकासकर्ता	WhatsApp Inc.
पहली बार जारी:	2009
स्थिर रिलीज़	2.12.330 (एंड्राइड) / 2.12.9 (आईओएस) / अक्टूबर 24, 2015 (एंड्राइड) / अक्टूबर 14, 2015 (आईओएस)
प्रोग्रामिंग भाषा	Erlang
प्रचालन तंत्र	आईओएस एंड्रॉइड ब्लैकबेरी ओएस ब्लैकबेरी 10 विंडोज़ फोन नोकिया सीरीज 40 सिम्बियन तिज़ेन फायरफॉक्स ओएस
में उपलब्ध	बहुभाषी
प्रकार	इन्स्टेंट मेसेजिंग
लाइसेंस	फ्रीमियम
जालस्थल	www.whatsapp.com

- [app-voice-calling-now-open-to-all-android-users-report-669693](#)), March 12, 2015
2. "WhatsApp Voice Calling" (<http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2015/04/07/facebooks-whatsapp-voice-calling>). April 4, 2015.
 3. "व्हाट्सऐप उपयोगकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ से भी ज्यादा" (<http://aajtak.intoday.in/story/monthly-active-uses-of-what-sapp-is-now-more-than-90-million--1-831579.html/>) *आजतक*. 4 सितम्बर, 2015. | [date=](#) में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
 4. "19 अरब डॉलर में फेसबुक का हुआ वॉट्स-ऐप" (<http://www.amarujala.com/news/technology/tech-diary/facebook-buys-whatsapp/>). *अमर उजाला*. 21 फरवरी, 2014. | [date=](#) में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
 5. "19 अरब डॉलर में फेसबुक ने खरीदा, वाट्स-एप" (<http://hindi.oneindia.com/news/international/facebook-buys-whatsapp-287291.html>). *One India Hindi*. 20 फरवरी, 2014. | [date=](#) में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
 6. "Facebook buys WhatsApp for \$19 billion"(<http://money.cnn.com/2014/02/19/technology/social/facebook-what-sapp/>). *CNN*. 19 फरवरी, 2014. | [date=](#) में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)

बाहरी कड़ियाँ

- [अरबों के वॉट्स-ऐप के पीछे किसका था दिमाग?](#)

"<https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=व्हाट्सऐप&oldid=4024827>" से लिया गया

अन्तिम परिवर्तन 09:52, 24 नवम्बर 2018।

यह सामग्री [क्रियेटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन/शेयर-अलाइक लाइसेंस](#) के तहत उपलब्ध है; अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं। विस्तार से जानकारी हेतु [देखें उपयोग की शर्तें](#)